

Star Trading House recognised by Govt. of India

Date: 06/09/2023

To Bombay Stock Exchange Limited Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001

Sub.: E-Copy of Newspaper Publications

Ref.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("the Regulations")

Dear Sir

Please find attached e copy of the newspaper advertisement published in Business Standard (English and Hindi Editions) on 6th September, 2023 intimating about the dispatch of notice of 30th Annual General Meeting, Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2023 and availability of e voting facility to the shareholders of the Company.

We request you to please take the same on record.

Thanking You

Yours Faithfully

For Emmsons International Limited

Priya Kesari

Company Secretary and Compliance Officer

ACS 22710



WINNER OF NATIONAL AWARD

EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED

Kailash Colony, Delhi – 110048 | Tel: 011-29247721-25

Website: www.emmsons.com, Email id.: bhalendra.singh@emmsons.co

providing folio numbers, name of the shareholder, scanned copy of the

share certificate (front and back), self attested copy of PAN card and self

attested copy of any one document from the Aadhar card, Driving License $election\,Identity\,Card\,and\,pass port\,for\,registering\,email\,addresse$

Please contact your depository participants and register your email addresses

Members may note that the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the Financial Year ended 2022-23 is available on the Company's website <u>www.emmsons.com</u> and

website of the Stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The notice of

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their rights to

vote on the resolutions proposed to be passed at the 30th AGM by remote e-voting and

e-voting during the AGM. The company has engaged the services of Link Intime India

and e-voting during the AGM". The detailed procedure of remote-e voting and

The remote e-voting period begins from 09:00 a.m (IST) on Saturday 23^{rd} September, 2023

and ends on 05:00 p.m. (IST) on Tuesday 26th September, 2023. The remote e voting module shall be disabling for voting at 05:00 p.m. (IST) on Tuesday 26th September, 2023.

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

The voting rights of the members shall be in proportion to the paid up value of the

shares in the equity capital of the Company as of the cut-off date i.e. Wednesday

20th September 2023. A member who is not a member as on cut off date should treat

this notice for the information purpose only. Any person who acquires shares and becomes a member after the dispatch of the notices of the AGM and holds shares as on

the cut off date may refer instructions mentioned in the notices for obtaining login id

and password for casting the vote. However if you are already registered with LIIPL for

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may atten

n case of any query/issues with respect to e-voting, members may contact at <u>bhalendra.singh@emmsons.com</u>. Further in case of any queries with respect to e-voting, please contact Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting

manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send ar

For: Emmsons International Limited

Chairman & Managing Director

IDFC FIRST Bank

IDFC FIRST Bank Limited

(Formerly known Capital first Ltd)

e-voting, you may use your existing user ID and Password for casting your vote.

the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.

mail to <u>enotices@linkintime.co.in</u> or contact on: -Tel: 022 – 4918 6000.

ivate Limited (**"LIIPL"**) for providing its members the facility of **"remote e-voting**

AGM is also available on the website of Linkintime at <u>www.linkintime.co.in</u>.

Holding addresses as per the process advised by your DP.

e-voting during AGM has been provided the notice of 30th AGM.

Read.off.: Flat No. 301, Plot No.12, Zamrudpur, Commi

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company

will be held on Wednesday 27th September, 2023 at 12:15 p.m (IST) through Video

SSION NOTICE (For Immovable Properties)

[Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, The undersigned being the authorized officer of the **Indian Bank** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Ac and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Securit and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 16.06.2023 calling upon (1) M/s Padmawati Shikshan Sansthan (Trust/Borrower), (2) Mr. Lokesh Jain So Mr. Bhura Lala Jain (Guarantor), (3) Mrs. Sharmila Jain W/o Mr. Lokesh Jain (Guarantor / Mortgagor), (4) Miss Vidhushi Jain D/o Mr. Lokesh Jain (Guarantor) and (5) Mr. Bhura Lal Jain S/o Mr. Mohan Lal Jain (Guarantor) with our Udaipur Main Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 8,63,61,246/- (Rupees Eight Crore Sixty Three Lakhs Sixty One Thousand Two Hundred Forty Six Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule

below in exercise or powers conterred on nim under section 13(4) or the said Act read with rule 8 and 9 of the said rules, on this 02nd day of September of the year 2023. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for Rs. 8,63,61,246-(Rupees Eight Crore Sixty Three Lakhs Sixty One Thousand Two Hundred Forty Six Only) as on 15.06.2023 and interest thereon."We draw attention to the provisions of section 13(8) of the SARFAESI Act and the rules framed there under which deals with your rights of redemption over the securities"

Description of the Immovable Properties

 All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No 509 to 51 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist -Udaipur, admeasuring 22385 Sq Ft Bounded as under:- North: Garden & Khasra No. 508, South: Road & Khasra No 531 & 542 East: 60 Feet Wide Road, West: Khasra No. 514, 531 & The Arena Scholar School

2. All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No. 519, 3371/518 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist. Udaipur, admeasuring 5533 Sq Ft., Bounded as under:- North: Land with Khasra No. 5594 & Part of 3371/1518, South: 30

Feet wide Road, East: Land with Khasra no. 518 Mi & 30 Feet Wide Road, West: Land with Khasra No. 520

Khasra No. 520

3. All that Part and Parcel of the property consisting of Plot No. 01 with Khasra No. 522 Mi, 523 and 524 situated at Revenue Village - Titardi, Tehsil- Girwa, Dist- Udaipur, admeasuring 17280.50 Sq Ft., Bounded as under:- North: Land with Khasra No. 526 & Ex House, South: Land with Khasra No. 520 & 521, East: Land with Khasra No. 525 & 518, West: Land with Khasra No. 520 & 521, East: Land with Khasra No. 525 & 518, West: Land Wit Khasra No. 530 & 30 Feet Wide Road

Date: 02.09.2023 Place: Udaipur Authorised Officer, Indian Bank

Mantown Branch: Sawai Madhopur-322001 (Raj. Ph.: 91-7462-220396, 223949, E-Mail: mantow@bankofbaroda.com POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 Whereas, The undersigned being the authorized officer of the BANK OF BARODA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security nterest (Enforcement) Rules, 2002 issued a **demand notice dated 03.05.2023** calling upon th orrower/s and guarantor/s namely:

Mr. Nirmal Kumar Swami S/o Shri Laxmi Chand R/o:- Mr. Prashant Jat S/o Late Ramsaha vii. Nimiar Kuniar Swalin Swalin Swalin Caxin Glahu Kv.- im. Frashian Gat 570 Cate Panisahar D2/218, Scout Ground Ke Pas, Housing Board Colony, Jat House No. 116, Akodiya Pati Sawai Madhopur-322001 (Borrower) Wazirpur (Gangapur City) Distric Sawai Madhopur, (Guarantor)

Late Shri Laxmi Chand Swami S/o Late Shri Misri Das Swami Through its legal heirs a) Mr. Nirmal Kumar Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami b) Mr. Naresh Kumar Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena Swami S/o Late Shri Laxmi Chand Swami c) Ms. Reena (umari D/o Late Shri Laxrni Chand Swami d) Mrs. Shanti Board, Sawai Madhopur District Devi W/o Late Shri Laxmi Chand Swami All above residing Sawai Madhopur-322001 t R/o: House No. 2/218, Housing Board Colony, Scout Sawai Madhopur-322001 Devi W/O Late Shri Laxmi Chand Swami All above residing 1 s a w a i M a d h o p u r - 3 z at R/o: House No. 2/218, Housing Board Colony, Scout 1 (Guarantor cum mortgagor) Housing Board, Sawai Madhopur, District: Sawai (Guarantor cum mortgagor) Madhopur-322001 e) Ms. Beena Kumari D/o Late Shri Laxmi Chand Swami R/o: House No. 2/144, Housing Board Colony, Scout Field, Housing Board, Sawai Madhopur, District: Sawai Madhopur-322001 (Guarantors)

to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 18,62,632.52/- (Rupees Eighteen Lak Sixty Two Thousand Six Hundred Thirty Two & Paisa Fifty Two Only) as on 29.04.2023 + furthe interest from 30.04.2023+ Other charges together with further interest thereon at the contractua rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from-the date of receip f the said notice

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described hereir below in exercise of powers conferred on him/her under sub Section (4) of Section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this 01th day of September of th

Teal 2023.
The Borrower/ Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Mantown Branch, Sawai Madhopur for an amount of Rs. 17,17,919.55 (Rupees Seventeen Lakh Seventeen Thousand Nine Hundred Nineteen & Paisa Fifty Five Only) as or 31.08.2023 and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expense till date of payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the immovable property known as Residential Property situated a M.I.G.-I number 02/218, Scout Field, housing Board Colony, Sawai Madhopur, District Sawa Madhopur, Rajasthan standing in the name of Smt. Shanti Devi W/o Shri Laxmi Chand Swam Admeasuring 90.00 Sq.mt. East: House No. MIG-I 2/217, West: House No. MIG-I 2/219, North House No. MIG-12/233, South: Road 6.00 Meter wide (Authorised Officer cum Chief Manager Date:- 01-09-2023, Place:- Sawai Madhopur Bank of Baroda

VINTRON INFORMATICS LIMITED CIN: L72100DL1991PLC045276 Regd. Off.: D-88, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Phone: 011 – 44126457; Fax: 011-44126457

Email: vintroninformatics.01@gmail.com; Website: www.vintroninformatic. PUBLIC NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Saturday, September 30, 2023 at the Registered office of the company, i.e. D-88, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 to transact the business, as set out in the Notice convening the AGM. This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 Dt. April 8, 2020, No. 17/2020 Dt. April 13, 2020, No. 20/2020 Dt. May 5, 2020, No. 02/2021 Dt. January 13, 2021, No. 21/2021 Dt. December 14, 2021, No. 21/2022 Dt. May 5, 2022 and No. 10/2022 Dt. December 28, 2022, ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/012/ Securities and Exchange Board of India vide its Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/012. P/2020/79 Dt. May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIFt/P/2021/11 Dt. January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIFt/P/2021/11 Dt. January 15, 2023 ("SEBI Circulars") respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India which has allowed the companies to send their Applied Peacet in Alexand Peacet in Ale

Annual Report in electronic mode. n compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent only through electronic mode to all the Members and all other persons so entitled, whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent ("Registrar/RTA") of the Company /Depository Participants ("DPs") within the prescribed timelines.

Company /Depository Participants (DPs) within the prescribed unientees.

Members can attend and participate in the AGM through the remote e-voting facility Provide by the Company as per the provision of section 108 of Companies act, 2013 and rules made their under as well as through their physical presence in the AGM of the Company. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through remote E-Voting facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members who have not registered/undated their e-mail address and mobile number including address details are requested updated their e-final address details with the DPs in case the shares are held in electronic form and with the Company's RTA by writing

Drs in case the shares are held in election from an own the Company's Knab whiting to admin(@skylinerta.com, in case the shares are held in physical form for receiving the Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2022-23 along with instructions for e-voting and participating in the AGM through remote e-voting facility. Detailed procedure for remote e-voting/ voting at the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode/physical mode will be provided in the Notice of AGM.

For Vintron Informatics Limited Ashish

Date: 06.09.2023 Place: New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

UVAL **URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED**

Address : Shop No. 329, Avior, Nirmal Galaxy, L. B. S. Marg, Mulund (W), Mumbai-400 080 INDIA

Tel. No.: +91 22 2565 1355, Email id:- info@uravilamps.com, Web INTIMATION REGARDING 19TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 12/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 12, 2021, Circular No. 12/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 02/2022 and 03/2022 dated May 05, 2022 Circular No. 10/2022 dated December and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), has allowed the Companies to conduct the AGM through VC or OAVM during the September 2023. In accordance with, the said circulars of MCA, SEBI and pplicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and SEBI (Listing Obligations and obsclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Uravi T And Wedge Lamps Limited will be held on Saturday September 30, 2023, at 10:30 A. M. (I.S.T.) through VC / OAVM without any physical presence o

nembers. The process of participation in the AGM will be provided the Notice of AGM. In compliance with the above circulars, the Company shall send electronic copies of Annual Repor along with the Notice of AGM to those shareholders whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant. The Notice of AGM along with Annual Report for the financia year 2022-23, will be available on the website of the Company at **www.uravilamps.com**, or the website of Stock Exchanges i. e. NSE Limited at **www.nseindia.com** and BSE Limited at

www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at vww.evotina.nsdl.com

lanner of Registering / Updating Email addresses:

For Physical Shareholders: Send scanned copy of the following documents by email to their respective Depository Participant or the Registrar and Transfer Agent (RTA) at investor@bigshareonline.com or the

Company at info@uravilamps.com a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address, mobi

number and email address to be registered; b. Self-attested scanned copy of the Pan Card; and

c. Self-attested scanned of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members as registered with the

company.

Along with the above details, for registering the Bank Account details:

Name and Branch of the Bank:

Bank Account Type; Bank Account Number

MICR Code:

Scan copy of the cancelled cheque bearing all the above details for authentication

For Electronic Shareholders:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresse and mobile numbers with their relevant depositories through their depository part

Manner of Casting through E-voting : The remote e-voting as well as e-voting in the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the company. The details of the e-voting will be specified in the Notice of AGM. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID can access the e-voting system and vote on the e-voting system as per the procedure which will be mentioned in the AGM Notice

FOR URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED

Nirai Damii Gada Managing Director & CEO Place : Mumbai DIN: 00515932

कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर (छ.ग.) 🌉 निविदा संशोधन सूचना

क्र ./81/न .पा .नि ./यो .प्र . शाखा/2023-24 एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य ''नगर पालिक निगम . बिलासपुर अंतर्गत सामान्य मिटिंग हॉल निर्माण कार्य हेतु इस कार्यालय से जारी निविदा क्र. 81 STN 145213 अंतर्गत कार्य को नाम Construction of Meeting Hall Behind Town Hall' अनुमानित लागत राशि रु. ५३२.२४ लाख पढ़ा व समझा जावे। निविदा की सामान्य शर्ते , धरोहर राशि. विस्तत निविदा विज्ञप्ति. निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

Green City, Clean City, Dream City.

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

POSSESSION NOTICE

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 9 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount

upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 9 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] pelow and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amour mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem th secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

हम निशाद परवेज पुत्र श्री आले हसन निवासी एम0एम0आई0जी0-द्वितीय, एम0एम0-112, आजाद

नगर शहर व जिला- मुरादाबाद एक सम्पत्ति एम0एम0आई0जी0-II, एम0एम0-112, आजाद नगर

योजना, मरादाबाद रकबर्ड 60.15 वर्ग मीटर के स्वामी बजरिये बयनामा इकरारी श्रीमति फात्मा पत्नी श्री

जावेद आलम जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय मुरादाबाद में बही सं0-1, जिल्द सं0- 9866 के

पृष्ठ सं0- 55 से 80 तक क्रमांक 9431 पर दिनांक 15.06.2013 को हुआ है। हम उक्त भवन के सापेक्ष

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड, मुरादाबाद से ऋण ले रहे हैं। उक्त सम्पत्ति का मूल आवंटन पत्र जो

कि एम0डी0ए0 मुरादाबाद द्वारा उमेर अहमद पुत्र अब्दुल इलाही के पक्ष में निर्गत किया गया था, कहीं

खो ⁄गिर गया है, जिसकी सूचना ट्रांसपोर्ट नगर चौकी, थाना मझोला मुरादाबाद में दर्ज है। यदि किसी भी

व्यक्ति संस्था के कब्जे में हो या किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित्ति हो तो वह बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन

रोड शाखा मुरादाबाद, मोबाइल नं0- 8477009409 पर अपनी आपित 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत क

सकता है। तदोपरान्त उपरोक्त आवंटन पत्र की वैधता शून्य व निष्प्रभावी समझी जायेगी।

Date of Demand Name And Address of Borrower **Details of Property** Outstanding & Loan Account Number Amount Possessed [F] oan No. X0HEJHE00001595713 & X0HEJHE00002162315 SURAJ BORANA, 2. GARIMA PARIHAR BOTH ARE Property Situated Sojativo Ganchiyo Ka Bas. Kabutron Ka Chowk in side city 38.29.169.53/-RESIDENT OF GANCHIYO KA BASS KABUTRO KA CHOWK JODHPUR-342003 **3. Saroj Borana, 4. Sampat raj** Jodhpur Admeasuring area- 246 Sq as on 09-06-2021 Int. and Yards Four corners of the Property North-BOTH ARE RESIDENT OF SOJATIYA GANCHIYON KA BASS KABUTRON KA CHOWK BAIJI KA TALA JODHPUR- 342001, Property of Ganesh Ji, **South-** Property of Kishan Ji, **East-** Gali, **West-** Property of

5. M/s J M R C MEDICOS SHOP NO 8, 9 SECTOR-E SHASTR till realization Durgo ii as per sale deed Date: 04.09.2023 Place: Jodhpur AUTHORISED OFFICER, M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

punjab national bank

Chola

Circle Sastra Centre, Bharatpur

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of E-Nucleon Sale who the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property. mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

ear	nest money deposit will be	as mentioned in the table below	wagainst the respective ULE OF THE SECURE				
Lot	Name of the Branch	Description of properties along with name of	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002	Nature of possession	(A) Reserve Price (B) EMD amount/ last date of EMD	Date/time of	Details of any other
no.	Details of the borrowers/ guarantors	mortgagors (Owner of the properties)	(B) Outstanding amount	& date	deposit (C) Bid Increase value	e-auction	encum- brance
1.	PNB-Todabhim Distt. Karauli (Raj) Borrower: M/s Balaji Tredars, Prop. Janak Raj Sharma S/o Har Sahay Sharma, Village - Gopalpura Panchayat Samiti, Todabhim, Karauli (Raj.)	Residential Property situated at Khasra No. 319, Patta No.04) (21.09.2008), Village-Gopalpura, Panchyat Samiti-Todabhim, Distt. Karauli (Rai), in the name of Sh. Har Sahay Sharma S/o Mulya Ram Sharma, Measuring Area 134.44 SQ Yard, Bounded: Morth: Gall Then House of Shri Phool, South: Sh. Babu Lal Sharma. East: Gali, West: Open Land Then Road	(A) 09.12.2021 (B) Rs 13,04,000 (Rs. Thirteen Lakh Four Thousand only)	Symbolic Possession Taken on 03.06.2022	A) Rs.12,02000/- B) Rs. 1,20,200/- 25.09.2023 C) Rs. 5000/-	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known
2.	Borrower: (Owner- Shri Jagdish Singh S/o Ram Khiladi M/s Aydhesh Vidhya	Commercial Land & Building struated at Khasra No. 1668/1869, Village - Luhasa, Tehsil - Nadbai, Distt. Bharatpur (Raj.), In the name of Sh. Jagdish S/o Sh. Ram Khiladi, Measuring Area 1505.44 sqm, Rounded: North: Land of Ramkhiladi, South: Kumher Road, East: Land of Chandrbhan	(A) 17.01.2023 (B) 816903.55 (Rupees Eight lakh Sixteen thousand, Nine Hundred Three and Fifty Five paise only)) as on 31.12.2022 with further interest & other charges	Symbolic Possession Taken on 15.04.2023	A) Rs.79,20,000/- B) Rs.7,92,000/- 25.09.2023 C) Rs. 1,00,000/-	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known
3.	Karauli (Raj) Borrower: Shri Prem Singh	Residential Property situated at Patta No. 01, Village-Mandawara, Tehsil-Sapotra, Disttt. Karauli (Raj.), Measuring Area 3625.91 Sqt, Bounded: North: Prop. of Bhakti/ Rasta, South: Prop. of Ratinam/ Rasta, East-Rasta/ Patore Bheeklal, West-Rasta	(A) 22.11.2022 (B) Rs. 239934/- (Rs. Two Lakh Thirty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Four) as on 30.10.2021 and	Symbolic Possession Taken on 30.01.2023	A) Rs. 9,68,000/- B) Rs. 96,800/- 25.09.2023	27.09.2023 12:00 noon to 17:00 PM	Not Known

other charges TERMS AND CONDITIONS- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (ring further conditions: 1. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. **3.** The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website

further interest and

https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app.http://www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in Authorized Officer Date: 06.09.2023 Place: Bharatpur STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 **Punjab National Bank**

Chemcon Speciality Chemicals Limited
CIN: L24231GJ1988PLC011652 Regd. Office: Block No. 355, Manjusar Kunpad Road, Village: Manjusar, Taluka: Savli, Vadodara – 391775 Tel: 0265 – 2981195 | Website: www.cscpl.com | Email: investor.relations@cscpl.com

Rs. 5.000/-

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34th (Thirty-fourth) Annual General Meeting (AGM) of the members of Chemcor Speciality Chemicals Limited (the Company) will be held on Thursday, September 28, 2023, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with MCA Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022(MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020 and January 5, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM

In accordance with the aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, has been sent through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members has been completed or September 5, 2023. The notice of AGM along with the Annual Report is also available on the Company's website (www.cscpl.com), Stock Exchanges website - BSE Limited (www.bseindia.com) & National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Notice of AGM shall also be available on the website of agency for providing the

Remote e-voting facility i.e. NSDL (www.evoting.nsdl.com). The Company is providing to its members, the facility to cast their vote electronically on all resolutions which are set out in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide the e-voting facility to the members. The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023, at 09:00 A.M. and ends on Wednesday. September 27, 2023, at 05:00 P.M.The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter and the

remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name is registered in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and/or for participation at AGM and vote through e-voting system available during the AGM.The Members who will be present during the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Members who have casted their vote through remote e-voting may also attend the

AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories and the person who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date may download the Notice of AGM and follow the

procedure for remote e-voting, attending the AGM and voting at the AGM as mentioned in the notice of AGM. Those Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s can get their email address registered by following the steps as given below:

a. For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned share certificate (front and back), self- attested copy of the PAN and self-attested scanned copy of address proof, by email

to the Company's email address at: investor.relations@cscpl.com. b. For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s

All grievances connected with the facility for voting by electronic means can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login

through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Place: Vadodara

Date: September 5, 2023

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk
securities in Demat mode with CDSL	by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at
	toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk
securities in Demat mode with NSDL	by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000
	and 022 - 2499 7000
	F 0 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

For Chemcon Speciality Chemicals Limited Shahilkumar Kapatel

Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Circular dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India

change it subsequently.

Date: 05.09.2023

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL AT KOLAR

APPLICANTS: Smt. Amreen & others -V/s RESPONDENTS: Sri Hazi Hasam & another NOTICE TO RESPONDENT No. 1

WHEREAS, the applicants have instituted where As, the applicants have historically the above claim petition against you and others claiming compensation for the death of late Isusabi @ Syed Yusuf in a road traffic accident. occurred on 18-3-2020 at about 12-45 noon, at Imperial project, in between 12-43 hoof, at imperial project, in between Ettakodi- Chikkathirupathi Villages, Malur Taluk, Kolar District with 1st respondent Lorry bearing registration No. HR-73-612. Thereby you are hereby summon to appear

on 29-08-2023.

Sri.T.V RAMESH &

E.C.A. No. 7/2021

<mark>Gri. Hazi Hasam,</mark> R/o. H.No. 181, Vtawa /illage, Hathin aluk, Palwal Dist., Haryana

of this court in person or by a pleader on of this court in person or by a pleader on of the court in this court in person or by a pleader on of the court in this court i ailing which the above petition will be disposed off exparte

Given under my hand and seal of the Cour

121103

By order of the Court, Court of small Causes

Kolar

IDFC FIRST Bank Limited (Formerly known Capital First Ltd)

CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031, TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022.

AUTHORIZED OFFICER - Kartik Ahuja CONTACT NUMBER -7455846882 Email id-kartik.ahuja@idfcbank.com **APPENDIX- IV-A** SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforceme of Security Interest Act, 2002 read with provisos to Rule 8 (6)& 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Co-borrower(s) that the below describe immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of IDFC FIRST Bank Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 22.09.2023, for Recovery of INR 24,44,513.42 as on 01-10-2018 in account No's 13224873 due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capit

First Ltd) from. SUBHASH CHAND, RAM KUMAR, as B A	Borrower(s) and Co-Borrowers (s). .UCTION STATUS
Reserve Price	INR 1,836,000/-
Earnest Money Deposit Amount.	INR 1,83,600/-
Date of Submission of BID/Deposit Earnest Money.	21.09.2023 Up to 5.00 PM
Date of Inspection of Property	15.09.2023 11.00 AM to 4.00 PM
Date of Auction	22.09.2023 11.00 AM to 1.00 PM
Property details	FLAT NO-F-1, ON FIRST FLOOR, PLOT NO-C-1/47, DLF DILSHAD EXTN- II, VILLAGE, BRAHAMPURI BHOPURA, PARGANA LONI,

UTTAR PRADESH-201 005 For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IDFC FIRST Bank website i.e

https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC/. Disclaimer: Please note that the said notice is issued for sale of immovable property only and IDFC FIRST Bank Limited has no right to sell the movable assets, if any, present at the immovable property **Authorised Officer**

Place: GHAZIABAD

Date: 05.09.2023

Semac Consultants Limited

business as set out in the Notice of the AGM dated 29th August 2023.

(Formerly Known as Revathi Equipment Limited)

SEMAC Registered Office: Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 Phone: +91-4226655111

CIN:L29120TZ1977PLC000780

NOTICE Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday the 27th September, 2023 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 to transact the Ordinary and Special

The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been sent to all members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial owners as on close of the business hours 25th August, 2023 maintained by the Depository Participants (DPs) /Company, Registrar and Share Transfer Agent. The Notice of the 46th Annual General Meeting of the Members along with the Annual Report for the

financial year 2022-23 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been despatched

by Speed Post or Registered Post or Courier to the registered addresses of members whose emailid is not available and through Electronic Mode to the members who have registered their email-id with the Company/ Depository Participant. The despatch of these documents has been completed on 04th September 2023. The notice of the ensuing AGM along with the Annual Report are also available on the Company's website at https://semacconsultants.com/ and at the website of the Stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and at National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

www.nseindia.com. All the documents referred in the notice are available at the registered office for inspection during normal business hours 10.00 am to 4.00 pm on all working days till the date of the A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 20th September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM. The Company has also offered e-voting facility to the members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company is providing electronic voting (remote e-voting) facility provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL) to its members through their "InstaVote" website. Members are

-		, ,	ofully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice.		
ı	1.	Date of completion of dispatch of Notice/ Annual Report	04th September 2023		
			24th September 2023 at 9.00 A.M.		
ı	3.	Date and time of end of remote e-voting Remote e-voting will not be allowed be and this date and time	26th September 2023 at 5.00 P.M		
ı	4.	Cut-off date of determining the members	20th September, 2023		

In case any Persons become members of the Company after the despatch of AGM notice and hold shares as on cut-off date of 20th September 2023, may follow the detailed instructions given in the AGM Notice

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. Any Member, who has already exercised his votes through remote e-voting, may attend the Meeting but is prohibited to vote at the Meeting and his/her vote, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid.

Practice, Coimbatore as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting at the meeting in a fair and transparent manner. The result of voting will be announced by the company in its website https://semacconsultants.com/ and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) and also will be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. This public notice is also available in the Company's website viz. https://semacconsultants.com/ and in the website of LIPL viz. instavote.linkintime.co.in and on the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed.

(Formerly known as Revathi Equipment Limited)

Date: 05th September 2023

Company Secretary & Compliance Officer

inclusive) for AGM.

by sending a request at engline.co.in or contact on: - Tel: 022 – 4918 6000. The Company has appointed Sri. M D Selvaraj, FCS of MDS & Associates, Company Secretaries in

remain closed from Thursday, 21st September 2023 to Wednesday, 27th September 2023 (both days For Semac Consultants Limited

Cut-off date of determining the members eligible for e-voting for accessing the e-voting platform. same may be disabled by LIIPL for voting thereafter.

Shareholders facing any technical issue in login or e-voting may contact Link Intime INSTAVOTE helpdesk

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will

The remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 26th September 2023 and the

Company Secretary & Compliance Officer

अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम, बिलासपर (छ.ग (SEBI), electronic copies of the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been sent on 5th September, 2023 to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). If you have not registered your email address with the Company/ Depositor Participants) you may please follow below instructions for registering/updating you email addresses: Physical Please send a request to the Company at <u>bhalendra.singh@emmsons.com</u>

में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडी के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की

60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपर्ण बकाया देयताओं का भगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कपया ध्यान दें कि सरफेसी कानन की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए. सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता "

सर्फे अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

स्थान : गाजियाबाद/करनाल/नर्ड दिल्ली/नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड



एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1993PLC053060

पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट सं. 301, प्लॉट सं. 12, जमरूदपुर, कम्युनिटी सेंटर, EMMSONS चेनाया केलाग कोलीनी, नई दिल्ली-110048, दूरभाष : 011-29247721-25 वेबसाइट : www.emmsons.com, ई-मेल आईडी : bhalendra.singh@emms

30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी नदद्वारा सचना दी जाती है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनसार व्यवसाय निष्पादित करने के ि कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:15 बर्ज भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम

प्रायोजित की जाएगी। कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख् 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के ला प्रावधानों के अनुपालन में, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक : नवरी, 2023 के अनुसार, 30वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट क लेक्ट्रॉनिक प्रतियां 5 सितंबर, 2023 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल प कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

यदि आपने अपना ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी पतिभागियों के साथ पंजीकत नहीं किया है। तो आप अ ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

मिल पते पंजीकृत करने के लिए कृपया कंपनी को bhalendra.singh@emmsons.com प एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की ग कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुन पहचान पत्र और पासपोर्ट में से दस्तावेज किसी एक की स्वपमाणित पति पदान करें।

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुस अपने ईमेल पते पंजीकृत करें।

ादस्य ध्यान दें कि 30वीं एजीएम की सूचना और 2022-23 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी कं बसाइट www.emmsons.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइ vww.bseindia.com पर उपलब्ध है। एजीएम का नोटिस लिंकइनटाइम की वेबसाइ www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा 30वीं एजीएम में पारित किए जा वाले पस्तावित पस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सविधा पदान करने में पसन्त है। कंपन । अपने सदस्यों को ' रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग' की सुविधा प्रदान करने के लिए लिंब नटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की सेवाएं ली हैं। एजीएम के दौरान रिमोट-ई वोटिंग औ –वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 30वीं एजीएम की सूचना पर उपलब्ध करा दी गई है।

रेमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार 23 सितंबर, 2023 को सबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शरू होगी और मंगलव 26 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल मंगलवार 26 सितंबर 023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद मतदान के लिए अक्षम हो जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा कि प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार 20 सितंबर, 2023 को कंपनी की इक्विटी पूंजी में उनवे गेयरों के भुगतान मूल्य के अनुपात में होगा। कोई सदस्य जो कट–ऑफ के अनुसार सदस्य नहीं है उसे इस नोटिस को केवल सचना प्रयोजन के लिए समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो शेयर पाप्त करता है और एजीएम के नोटिउ भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और सवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का संदर्भ ले सकता है। हालाँकि यदि आप ई-वोटिंग वे लिए पहले से ही एलआईआईपीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूज आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

जेन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीए ां भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रशन्मार के मामले में सहस्य bhalendra singh@emmsons.com पर संपर कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया https://instavote.linktime.co.in पर उपलब्ध सहायता अनुभाग के अंतर्गत Frequently Asked Questions ('FAQs') and nstaVote e-Voting manual का संदर्भ ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेजें र

अनिल कुमार मोंग अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



नृह शाखा : नृह, तहसील नृह, जिला नृह, मेवात-122107. दरभाष : 01267-271000 ई-मेल : Nuh.Chandigarh@bankofindia.co.in

[नियम 8(1)] कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जैसा कि अधोहरताक्ष्मी ने विनीय आस्तियों के पतिभतिकरण एवं पनर्तिमाण तथा पतिभति हित पवर्तन अधिनियम २००२ के तहत बैंक ऑफ इंडिया का पाधिक अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखि कर्जदार/रों से सुचना में प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि भगतान करने के लिए कहरें

. कर्जदार(रों) के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्ष ने प्रतिभृत हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित

सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार(रों). जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी टी जार्त है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार राशि तथा उस पर भावी ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया. नह शाखा के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष किया जाता है। मांग सूचना की तिथि

बंधककर्ता का नाम की तिथि की तिथि तक बकाया राशि कर्जदार : श्रीमती गीता मित्तल पत्नी श्री सुभाष 28.10.2022 तक तथा उस पर 9.70% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, मासिक रेस्ट्स एवं वैंक द्वारा किये गये सभी लागतें, प्रभार नंत्र ४९ किला नंतर 13 (8-0) ग्राली नंतर चन्द नंबर 88. किला नंबर 13 (8-0), गली नंबर

स्थित, जिसकी माप 50 वर्ग गज, श्रीमती गीता मित्तल पत्नी स्व. सुभाष चंद मित्तल के स्वामित्व में, उपरोक्त सम्पत्ति की सीमाएं :- उत्तर में: राधा बल्लभ; पूर्व की ओरः सड़क 18 फीट; पश्चिम मेंः रवि का घर; दक्षिण में: कांता पार्षद

13.03.2023 04.09.2023 ₹. 18,60,634.56 संपत्ति मकान नंबर एमसीएफ नंबर 28.09.2022 तक तथा उस पर 8.05% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि 354/305 का समस्त भाग, रेक्ट नंबर 83 ब्याज, मासिक रेस्ट्स एवं बैंक द्वारा किये गये सभी लागतें, प्रभार तथा व्यय

किला नंबर 2/1, 8, 9 का हिस्सा, खेड़ा देवता मंदिर के पास, विष्णु कॉलोनी, मौजा बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद हरियाणा - 121004 में स्थित, माप 50 वर्ग गज, श्री सुदीप पुत्र श्री मुन्ना लाल के स्वामित्व में, परिबद्ध:- उत्तर : अन्य सम्पत्ति, पूर्व चन्दर का मकान, पश्चिम : गजेन्द्र का मकान, दक्षिण : रोड 15 फीट

तिथि : 05.09.2023, स्थान : नूह

अधिकत प्राधिकारी



Insight Out



एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएनः L55101DL1980PLC011037 पंजीकृत कार्यालयः भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066 फोनः 011-66771225/1226, फैक्सः 011-26791033 ई-मेलः investorrelations@ahlnorth.com; वेबसाईटः www.asianhotelsnorth.com

42वीं वार्षिक आम बैठक व पुस्तक बंदी की सूचना तथा

कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग इत्यादि से सम्बंधित प्रज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

- एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड (कम्पनी) की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 11.30 बजे (आईएसटी), एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, 42वीं एजीएम की सूचना में निरूपित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू होने योग्य प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम), संबंधित सेक्रेटेरियल मानक तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 क्रमशः तथा इस संबंध में इसके पश्चात् जारी किए गए परिपत्रों, नवीनतम 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 (इसके पश्चात् सामूहिक तौर पर 'एमसीए परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने मास्टर सर्कुलर संख्या SEBI/ HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांकित 11 जुलाई, 2023 के हवाले से इसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के विषय-स्वरुप, कम्पनियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है, आयोजित की जाएगी। 42वीं एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110066 माना जाएगा।
- कम्पनी ने एजीएम की सूचना सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 का प्रेषण 5 सितम्बर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट के ई–मेल अग्रेषण में दिए गए अपने ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। एजीएम में भाग लेने हेतु वेबलिंक <u>https://emeetings.kfintech.com</u> हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम हेतु संगणित किया जाएगा।
- कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 के अनुसार, भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज़ड तौर पैर शेयर रखने वाले सदस्य, 42वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") की सेवाएं ली हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि
- 42वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय(ओं) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपादित किया जाएगा;
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को पूर्वीह 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी;
- iii. रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी; iv. रिमोट ई-वोटिंग या 42वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने हेतू
- कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 है; ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी / आरटीए / डिपॉजिटरी सहभागी(ओं) के साथ पंजीकृत / अद्यतन नहीं हैं तथा कोई
- भी व्यक्ति जो शेयरों का अधिग्रहण 42वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को उसके शेयर प्रतिरक्षित करता है, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके यूजर आईडी एवं प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त कर सकता है: (क) भौतिक मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई—मेल पते, पिन कोड, बैंक विवरण,
 - आवासीय स्थिति इत्यादि सहित मेलिंग पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को कम्पनी के आरटीए को निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 एवं सेबी परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांकित 16 मार्च, 2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अन्य फॉर्म में सूचित करें। । उक्त फॉर्म कम्पनी की वेबसाइट https://www.asianhotelsnorth.com/Downloads-html से डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह आस्टीए की वेबसाइट <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.asp</u>x#isc_download_hrd पर भी उपलब्ध हैं।
- (ख) डिमैटेरियलाइज्ड मोड में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदयों, जिन्होंने ईमेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं), जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता प्रतिरक्षित रखते हैं, के साथ अपने ईमेल पते का पंजीकरण / अद्यतन कराएं।

(ग) उचित सत्यापन के पश्चात् कम्पनी / आरटीए आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को आपके संबंधित ईमेल पते पर अग्रेषित

- (घ) अपना वोट डालने के लिए 42वीं एजीएम की सूचना के नोट संख्या 15 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- (ङ) आप फोलियों के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।
- सदस्य ध्यान दें किः क) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के उपरान्त आरटीए द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात् सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) वे सदस्य जो रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके हों, उन्हें 42वीं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा; ग) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से 42वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें 42वीं एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी; एवं; घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, 42 वीं एजीएम में वीसी $\stackrel{\smile}{/}$ ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने एवं 42वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु अधिकृत होगा। 42वीं एजीएम की सूचना स्पष्ट रूप से रिमोट ई—वोटिंग, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया बताती है;
- एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 कम्पनी की वेबसाइट <u>www.asianhotelsnorth.com</u> पर अपलोड कर दी . गई हैं तथा इन्हें इसके सूचना पट अथवा मुख्य पृष्ठ पर 'रिपोर्ट' अनुभाग के अन्तर्गत 'वार्षिक रिपोर्ट' में एशियन होटल्स नॉर्थ — एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022—23 पर क्लिक कर के देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है, तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (<u>www.bseindia.com</u>) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर उपलब्ध हैं एवं कम्पनी के रिजस्ट्रार व ट्रान्सफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx</u> पर भी उपलब्ध है।
- viii. यदि सदस्य उपरोक्त मामलों में कोई प्रश्न रखते हैं, तो सदस्य आरटीए की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.kfintech.com के हेल्प एवं 'एफएक्यू' अनुभाग पर जा सकते हैं या आरटीए से उनके कार्यालय सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 में टेलीफोन नंबर 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर अथवा ई—मेल आईडी evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर या आरटीए के अधिकारी, श्री शंकर जी., वरिष्ठ प्रबंधक, से <u>sankara.gokavarapu@kfintech.com</u> पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी से भी 011–66771225 / 1226 एवं ईमेल आईडीः <u>investorrelations@ahlnorth.com</u> पर संपर्क कर सकते हैं।
- कम्पनी के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, श्री रूपेश अग्रवाल, प्रबंध भागीदार (सदस्यता संख्या एसीएस 16302), उनके विफल होने पर श्री शशिकांत तिवारी, भागीदार (सदस्यता संख्या एफसीएस 11919), मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, की रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इन्स्टा पॉल) के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। मतदान का परिणाम निर्धारित समय के अन्दर घोषित किया जाएगा, और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा तथा कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर भी अपलोड
- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 10(1) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023, (दोनों दिवस सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कते एवं की ओर से एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड हस्ता /-तरुण श्रीवास्तव कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या एसीएसः 53209

P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
IPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email: upstatesugarcorporation@gmail.com Ref.No. SSC/CCDA/Cane Marketing/2023-24/732

दिनांक: 05.09.2023

स्थानः नई दिल्ली

Invitation of e-Bids

for Out Sourcing of Cane Marketing works in Pipraich (Gorakhpur) and Munderwa (Basti) units of UPSSCL

UPSSCL invites e-Bid for out sourcing of cane marketing works in Pipraich (Gorakhpur) and Munderwa (Basti) units of UPSSCL. Bid document containing details of scope of work, eligibility criteria, other terms and conditions and draft agreement etc. can be downloaded from website www.upsugcorp.in. Interested bidders may submit their e-Bid on the website www.etender.up.nic.in as per conditions given in tender form upto 14.09.2023 till 5:00 pm, e-Bid shall be opened on 15.09.2023 at 12:00 noon. Managing Director, UPSSCL reserves the right to reject any/all tenders without assigning MANAGING DIRECTOR any reason.

ACME RESOURCES LIMITED

CIN: L65993DL1985PLC314861 Regd. Office: 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-II, Netaji Subhash Place,

Pitampura New Delhi - 110034 Phone: (011)27026766, Fax: 91-11 47008010

Email: acmeresources@gmail.com, Website: www.acmeresources.in NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of

ACME RESOURCES LIMITED will be held on Saturday, the 30th day of September 2023 at 10.00 A.M. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Mean ('OAVM') to facility the following business. ORDINARY BUSINESS 1. To receive, consider and adopt the Audited Standalone Balance Sheet as at March

- 31, 2023, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31 2023, Cash Flow Statement for the financial year ended March 31, 2023 and reports of Directors and Auditors thereon
- To receive, consider and adopt the Audited Consolidated Balance Sheet as a March 31, 2023, Statement of Profit and Loss for the financial year ended on March 31, 2023, Cash Flow Statement for the financial year ended March 31 2023 and report of Auditors thereon

Notice of the AGM, setting out the business to transacted thereat, have been sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses and physical copy of the said notice in the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of notice will be completed on September 1, 2023. In compliance with section 108 of the companies act, 2013 read with rule 20 of the

companies (Management and Administration) rule, 2014, as amended and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosers Requirements) Regulation, 2015, the member are provided with the facility to cast their votes on resolutions proposed at the meeting by electronic means, from a place other than the Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'). The said facility will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Pursuant to SEBI circular for holding of the annual general meeting ('AGM') through VC/OAVM facility, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') and MCA Circulars, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM hereinafter called as 'e-AGM'.

The details relating to E-Voting in terms of said act and rules, are as under: The date and time of commencement and end of remote E-voting: from 27th


- September 2023 (9.00 a.m.) till 29th September 2023 (5.00 p.m.). Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The
- remote e-voting module shall be blocked by NSDL for voting thereafter. The cut-off date: September 22nd 2023, member holding shares as on the cut-of
- date, may cast their vote by remote e-voting. A person, who acquires shares and becomes a shareholder of the company afte
- the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain their login-id and password by sending an e-mail mentioning their folio no. /DP ID no., to acmeresources@gmail.com or mdpldc@yahoo.com. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing
- user-id and password can be used for casting their vote. A person, whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the e-AGM.
- Mr. Amit Choraria, Practicing Chartered Accountant (M. No. 066838) has bee appoined by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting system on the
- date of the AGM, in a fair and transparent manner. Website address where the notice of the AGM id displayed: Company acmeresources in NSDL: www.evoting.nsdl.com.
- Contact details of the person's responsible to address the grievances connected

Particulars	National Securities Depository Limited (NSDL)	Maheshwari Datamatics Private Limited
Name and Designation	Mr. Pritam Dutta	Mr. Ravi Kumar Bahl
Address:-	The Millenium second floor,	23, R.N. Mukherjee Road,
	235/2A, A.J.C. Bose Road,	Kolkatta-700001
	Kolkatta-700020	
Email ID :-	pritamd@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com
Phone No.	9930574474	033-22482248

By order of the Board For **ACME RESOURCES LIMITED** Sd/- Amanpreet Kaur Company Secretary

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 5 सितम्बर, 2023



स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड CIN: U25208HR1983PLC015135

पंजी. कार्यालय : 23/ मथुरा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004 फोन नंबर: 0129.4296500 ई-मेल: secretarial@studds.com, वेबसाइट: www.studds.com

41वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा ई—वोटिंग जानकारी रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठव ("एजीएम"), शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को अप. 4.00 बजे (आईएसटी), एजीएम की सूचना सुचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत्, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं उसव नियमों, तदधीन संशोधनों सहित के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी जनरल सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कॉन्फ्रेन्स / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

- . एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम क सूचना, लेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेजों सहित) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफ एजेन्ट ("आरटीए") अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स ("डीपी'ज) के पास 01 सितम्बर 2023 को पंजीबद्ध है. सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सचना तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हे वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.studds.com/investor-relations पर तथ आरटीए की वेबसाइट <u>www.linkintime.co.in</u> पर भी उपलब्ध हैं।
- कम्पनी ने लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के संचालन तथा इसके सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुबंधित की हैं। सदस्यगण अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम ई—वोटिंग द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित / उल्लेखित विधि में डाल सकते हैं।
- बोर्ड ने कम्पनी सेक्रेटरीज, मनीष के ऐंड एसोसिएट्स के पार्टनर सीएस मनीष कुमार व ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियक्त किया है। घोषित परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.studds.com पर प्रदर्शित की
- एमसीए सर्कलर्स के निबन्धनों में, चंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थित की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, अतः परोक्षियों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 105 के तहत सदस्यों द्वारा परोक्षियों की नियुक्ति की सुविधा, इस एजीएम के लिए उपलब्ध
- एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम ई-वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
- क) ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रेषण की तिथि: 04 सितम्बर, 2023 ख) रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोटिंग, वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागित तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के प्रयोजनार्थ सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु कट—ऑफ
- तिथि : 22 सितम्बर, 2023 (व्यवसाय समयावधि की समाप्ति पर)। ग) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित किय गया, प्राप्त करने हेतु सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु रेकार्ड तिथि : 29 सितम्बर, 2023 (व्यवसाय समयावधि की समाप्ति पर)।
- घ) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : 26 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 9.00 बज (आईएसटी) ङ) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 28 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी)। 28 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की
- च) जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चके होंगे, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। छ) इलेक्टॉनिक वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीईएन) : 230517
- ज) केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंग तथा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला होगा और वे ऐसा करने हेत प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के हकदार होंगे। झ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर
- अथवा सदस्यों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग सुविधा द्वारा एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त ञ) यदि अंतिम लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत अनुसार, एजीएम में अनुमोदित किया जात
- है, तो इस लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") की शर्त पर 30 दिन की सांविधिक समय सीमा के भीतर किया जाएगा। ट) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है औ कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है वह

secretarial@studds.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता

- नूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए। ठ) सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से उपस्थित सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।
- ड) किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण लिंक आरटीए से ई-मेल enotices@linktime.co.ir अथवा फोन नंबर 022—4918 6000 पर अथवा श्री हितेश वढेरा, कम्पनी सेक्रेटरी से ई—मेल secretarial@studds.com पर अथवा फोन : 0129—4296500 पर सम्पर्क कर सकते हैं। . इस सूचना में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर ई–वोटिंग के लिए ई–मेल आईडी'ज के पंजीकरण तथा युज
- आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उन सदस्यों हेतु प्रक्रिया, जिनकी ई-मेल आईडी ज डीपी'ज / आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं : क) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड

की स्व-सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा secretarial@studds.com को भेजें।

- ख) यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं, कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 डिजिन डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 डिजिट लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथव समेकित लेखा विवरण की प्रति. पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति) secretarial@studds.com को भेजें।
- सदस्यगण अपनी ई–मेल आईडी'ज तथा परमानेंट अकाउंट नंबर ("पीएएन") नीचे दी गई प्रक्रिय के अनसार पंजीकत करवा सकते हैं :
- क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य : भौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्य जिनके द्वारा उनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई गई है, वे अपनी ई-मेल आईडी पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति के साथ secretarial@studds.com पर लिखकर पंजीकृत करवा सकते हैं। ख) अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य : अभौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी के सदस्य
- अपनी ई—मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास उनके द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करवा सकते हैं। कृते स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

हितेश वढेर स्थान : फरीदाबाद कम्पनी सचिव तिथि : 05 सितम्बर, 2023